

ॐ

~~~~~

विद्या भवन, बालिका विद्यापीठ, लखीसराय ।

कक्षा-अष्टम

विषय- हिन्दी व्याकरण

दिनांक-23/07//2020

पुनरावृत्ति

卐~~~~~卐

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया

मेरे प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात!

आपका दिन मंगलमय हो!

जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगस्त महीने में आपकी जांच परीक्षा-पी.ए.1 होने वाली है ,इस जांच परीक्षा की तैयारी अब आपको

करनी है। पढ़ाए गए चैप्टरों के आधार पर प्रश्नावली दी जा रही है इसे आप बनाएँ।

## एन सी इ आर टी पर आधारित

1. दिए गए उत्तरों में से सही विकल्प पर (✓) का चिह्न लगाइए-

(क) हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया?

\* 14 सितंबर, 1946      \* 14 सितंबर, 1947

\* 14 सितंबर, 1949      \* 14 सितंबर, 1943

(ख) बोली भाषा का कैसा रूप है?

\* क्षेत्रीय   \* विकसित   \* अल्पविकसित   \* इनमें से कोई नहीं

(ग) बोली का क्षेत्र-

\* भाषा से व्यापक होता है।

\* भाषा की अपेक्षा सीमित होता है।

\*भाषा से दोगुना होता है।

\*भाषा के बराबर होता है।

(घ) इनमें से किस धातु से 'भाषा' शब्द बना है-

\* भाषण      \* भाष्      \*भास      \*कोई नहीं

(ङ) उर्दू की लिपि है -

\* देवनागरी      \* गुरुमुखी      \* फ़ारसी      \*रोमन।

(च) लिखित भाषा की आधारभूत इकाई है -

\* ध्वनि      \* वर्ण      \* शब्द      \* वाक्य

(छ) भाषा के शुद्ध रूप के ज्ञान के लिए जानना आवश्यक है -

\* वाक्य      \*लिपि      \*व्याकरण      \* शब्द

2. सही कथन के सामने (✓) और गलत कथन के सामने (x) का चिह्न लगाइए

(क) बोली को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है।

(ख) व्याकरण भाषा के गलत रूप का ज्ञान कराता है।

(ग) सर्वप्रथम लिखित भाषा का उद्भव हुआ था।

(घ) हम भाषा के मौखिक रूप में बातें करते हैं।

(ङ) अंग्रेजी की लिपि देवनागरी है।

प्रश्न का सही- सही उत्तर बनाएँ एवं उसे चेक करवाएँ ।

समस्या का समाधान नहीं होने पर आप बेझिझक पूछ सकते हैं।

कुमारी पिकी “कुसुम”



